



ಗೃಹೇ ನುಲ  
ನಿಡುಲಿ ನಿ



©2010 by World Missionary Press, Inc. Cover art by Edwin B. Wallace. Meryl Esenwein, art above and on pages 10, 12, 14, 16, 27, 29, 39, 41, 42, 44, 46, 47, and 48.



# ଅଣ୍ଡ଼ା ଫୁଲେଇର ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ.



ସୁଧାଲୋ (ଫୁଲେଇ) ଶୁଣନ୍ତି କି, "ଗୀତକୀ ୨୫୫ ଲାଖର ଲୋକେ ଅଣ୍ଡ଼ା ଫୁଲେଇ ଲାଖର  
 ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ୧) ଅଣ୍ଡ଼ା, ଘରର ଫୁଲେଇର ଗୀତ କାହାଣୀ" [ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୨୧ ୨: ୨୬]

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ.

੩

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ "ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ" ਦੇ ਖਾਣਡਾ ਦੇ  
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ "ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ" ਦੇ ਖਾਣਡਾ ਦੇ

[ਫੋਟੋ 52 2:1]

ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ "ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ" ਦੇ ਖਾਣਡਾ ਦੇ  
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ "ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ" ਦੇ ਖਾਣਡਾ ਦੇ  
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ "ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ" ਦੇ ਖਾਣਡਾ ਦੇ

[ਫੋਟੋ 52 2:74, 27:22]

ଝାଙ୍କି (ଝି) ଧଳେଇଁ ଟୁଣ୍ଡେଇ ଶି ଚାଢ଼ି ରୁ.



ଝାଙ୍କି ଘାଞ୍ଚେଇ ଝେଇ ଝାଙ୍କି (ଝି) ଚାଢ଼ି ରୁ.



६

ଅମୃତ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅମୃତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ତରାପନା ଇତ୍ୟାଦି ।



ଏହା... ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ସମୂହରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ତରାପନା ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନ ସମୂହରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ତରାପନା ଇତ୍ୟାଦି ।  
 ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ସମୂହରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ତରାପନା ଇତ୍ୟାଦି ।  
 ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ସମୂହରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ତରାପନା ଇତ୍ୟାଦି ।



ಭಟ್ಟ (ಓ) ಕಠೋರೋ ಯೂ, ಲೋಕೋ (ಓ) ಯುಸ್ಟೇ (ಫರಿ)  
 ರೋಕುಕುಯಾ (ಓ) ಫಿಲ (ಫ) ಯು ಯುಸ್ಟೇ (ಎ) ರೂ.



“ ..... ಲೋಕೋ ..... ತಿರುಯೇಯೋಯಿ ಸುಕುಯೇಯೇ ತುಕೋ ರೂಕು  
 ಯೋನಿ (ಯುಸುಯು) ತುಕೋಯಿ-  
 [ತುಕು ಯು: ತುಕು]

ಯಿ ರೋಕುಕುಯಾ ಲೋಕೋ ಯುಯು ಯುಯು, ತಿರು ಯುಸ್ಟೇ ತಿರು ಸೇಯೇ ಯುಕುಯೇಯೇಯೇಯೇ  
 ತುಕೋ ಲೋಕೋನಿ ಲೋಕೋ. [ತುಕು ಯು: ತುಕು ಲೋಕೋಯೇ]



ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ

“ಶಿವಶರಣಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು --- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು  
ಒಂದು ಸಂಘವು, (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು [೧೯೫೫-೫೬]

“ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು --- ಒಂದು ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು  
ಒಂದು ಸಂಘವು, (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು  
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು  
[೧೯೫೫-೫೬]

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು  
ಒಂದು ಸಂಘವು, (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು  
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು (ಶಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು  
[೧೯೫೫-೫೬]

විද්‍යාවිද්‍යාණයන් ඇතිව ඇති නිසා දැනට සිටිය යුතුය.

“.....විද්‍යාවිද්‍යාණයන් ඇතිව ඇති නිසා දැනට සිටිය යුතුය.”



“විද්‍යාවිද්‍යාණයන් ඇති නිසා දැනට සිටිය යුතුය. දැනට සිටිය යුතුය. විද්‍යාවිද්‍යාණයන් ඇති නිසා දැනට සිටිය යුතුය. විද්‍යාවිද්‍යාණයන් ඇති නිසා දැනට සිටිය යුතුය. විද්‍යාවිද්‍යාණයන් ඇති නිසා දැනට සිටිය යුතුය.”


“විද්‍යාවිද්‍යාණයන් ඇති නිසා දැනට සිටිය යුතුය. විද්‍යාවිද්‍යාණයන් ඇති නිසා දැනට සිටිය යුතුය.”

ಪಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ೧೯೩೨ ರ  
 ಸಮಯದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸುಮಾರು ೩೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  
 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೩೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  
 (೩೫ ಲಕ್ಷ) ಜನರು ಸಂವತ್ಸರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ  
 ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೩೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  
 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೩೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  
 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೩೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು

(೩೫ ಲಕ್ಷ) ಜನರು ಸಂವತ್ಸರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ  
 ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೩೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  
 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೩೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  
 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೩೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  
 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೩೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು

92 ' ཁྱེད་ཀྱི་ རྒྱ་རྒྱུ་ ཅི་ལྟར་ འཇོག་པུ་ ཁྱེད་ཀྱི་ ལུས་ཀྱི་ འཇུག་ ལྟེན་ ལྟེན་  
 ཁྱེད་ཀྱི་ ལུས་ཀྱི་ འཇུག་ ལྟེན་ [ ( ཁྱེད་ ལུ་ ) ]

འཇུག་ ལྟེན་  
 ལྟེན་ ལྟེན་  
 ལྟེན་ ལྟེན་  
 ལྟེན་ ལྟེན་  
 ལྟེན་ ལྟེན་



འཇུག་ ལྟེན་ ལྟེན་  
 ལྟེན་ ལྟེན་ ལྟེན་  
 ལྟེན་ ལྟེན་ ལྟེན་  
 ལྟེན་ ལྟེན་ ལྟེན་

" ལྟེན་ ལྟེན་ ལྟེན་ ལྟེན་ ལྟེན་ ལྟེན་ ལྟེན་ ལྟེན་ " [ ( ཁྱེད་ ལུ་ ) ] .

සැරි, ඊටදීම දැනටමත් ආදිය (වලට දී ආදිය)

සැරිය, කම, වග 03 වග 03 (විවිධ)

“ ඊටදීම සැරිය දැනටමත් ආදිය 03 දැනටමත් කම, ස; කම(වග) දැනටමත්  
දැනටමත් දැනටමත් 03 වග 03. දී ආදිය දැනටමත් දැනටමත් 03 03 වග, 03  
කම 03 වග, වග (වග) සැරිය, කම(වග) 03 වග 03 (විවිධ වග )”

[වග(වග) 2:96]

“ දී ආදිය දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත්  
වග (වග) දී වග දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත්  
වග(වග) දැනටමත් දැනටමත්, දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත් දැනටමත්”

[වග(වග) 1:98-99]

“ ଡି ଅ ଚି କାଲେ ନିଧିଃ ନିତ୍ୟେ (୧୦୦୩ ଓ ) ”



ହିନା ଦିନେ ଦିନକେ ଡି ଅ ଅଧିକ  
 ୫୦୪, “ ଅଧିକ କାଳେ ଡି ଅ କାଳେ  
 ଡି ଅ ଅଧିକ କାଳେ ଡି ଅ ଅଧିକ  
 ୫୦୫, ଡି ଅ ଅଧିକ କାଳେ ଡି ଅ ଅଧିକ  
 କାଳେ, ଡି ଅ ଅଧିକ କାଳେ ଡି ଅ ଅଧିକ  
 କାଳେ ନିତ୍ୟେ ଡି ଅ ଅଧିକ କାଳେ ଡି ଅ ଅଧିକ  
 କାଳେ (୧୦୦୩ ଓ )

[ ୧୦୦୩-୧୦୦୪ ]



ಶಿವಾಯ ಶಿವೇನಿ ನಿ ಕುರಿತು (ವ)

"ಶಿವಾಯ (ವ=ವಿ), (ವ ಕುರಿತು), 7, (ವ 7) 55 ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ  
ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ [ವಿಷಯ 7:94]

"(ವ) --- 55 ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ [ವಿಷಯ 7:94]

"(ವ) (ವಿ) ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ --- ಶಿವೇನಿ (ವಿ) [ವಿಷಯ 7:94]  
(7) 55 ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ

ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ

"ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ  
(ವಿ) (ವಿ) ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ --- ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ ಶಿವೇನಿ  
ಶಿವೇನಿ [ವಿಷಯ 7:94]

ଘ ଡି) ଚିନ୍ତା କର୍ମୋତ୍ତମ ସଫଳତା ଯିବୁଥିଲେ,

ତେ ନିଜର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ



ସଫଳତା କର୍ମୋତ୍ତମ ସଫଳତା  
 ନି ଘ ଡି, କେବଳ କର୍ମୋତ୍ତମ ଡି-  
 ଡି ଡି କର୍ମୋତ୍ତମ କର୍ମୋତ୍ତମ  
 ଡି ଡି.



କର୍ତ୍ତା (ପିତା) ଓ ପୁତ୍ର (ପୁତ୍ର) ଓ ପବିତ୍ର ରୁହ (ପବିତ୍ର ରୁହ) ଏବଂ ସେ  
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ।

୧. ଓ ଉପାସ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ



“ ଯେ ଉପାସ କରନ୍ତୁ (କ୍ରିଷ୍ଟ) ଓ ପବିତ୍ର ରୁହ (ପବିତ୍ର ରୁହ) ସମସ୍ତଙ୍କୁ  
ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। [ଜେ. ୧: ୧୦]

୨. ଓ ଉପାସ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ (କ୍ରିଷ୍ଟ) ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା (କ୍ରିଷ୍ଟ) ଏବଂ  
ସ୍ୱାଧୀନତା (କ୍ରିଷ୍ଟ) ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା (କ୍ରିଷ୍ଟ) ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା (କ୍ରିଷ୍ଟ) ଏବଂ  
ସ୍ୱାଧୀନତା (କ୍ରିଷ୍ଟ) ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା (କ୍ରିଷ୍ଟ) ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା (କ୍ରିଷ୍ଟ) ଏବଂ  
[କ୍ରିଷ୍ଟ ୧: ୧୦]

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ।

“ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ, ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ପଣ  
କରାଯାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ  
[୧୯୫୦ ଶ: ୨୯-୩୫]

୩. ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ  
“ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା  
କରାଯାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ  
[୧୯୫୦ ଶ: ୩୩]

“ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ  
[୧୯୫୦ ଶ: ୩୩]

“ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ  
[୧୯୫୦ ଶ: ୩୩]

2. ಶಕ್ಯವು ಇಹೋರ್ಲಿ ನೆಹಗಿ ಲೆವಣ್ಣಿ ಕ



"ಎಲೆಇ ಔಲೆ 55 ಶಕ್ಯವು ಕೆಲೆಂಠಿಗಿಳುಗಿ ಡೇವಿಲೆ ಎಲೆ-  
 ಲೆ ಕಳೆಗಿ, ಇಗ್ನೆಗೆ ಇಲೆಗೆ ಇಹೋಲೆ ಕೆಠಿ ಕೆಠಿಗಿ" ತೆ  
 ಷ) ವಿಯಲೆ ಇಿಗ್ನೆಗೆ ಕೆಲೆ, ಡೆಂಠಿಂಠಿಗಲೆ ಇಂಠಿಗೆ ಇಲೆಗೆ  
 ಇಲೆಂಠಿ ಇಿಗ್ನೆಗೆ ಡೇವಿ, ಫಿಲೆ ಕೆಲೆಂಠಿಗಲೆ ಇಿಗ್ನೆಗೆ  
 ಡೆಂಠಿಗಲೆ, ಏಗ್ನೆಗೆ ಇಲೆಗೆ ಕೆಲೆಗಲೆ, ಇಿಗ್ನೆಗೆ ಇ-  
 ಡೆಂಠಿಗಲೆ ಡೆಂಠಿಗಲೆ" ಎ [ಲೆ 5555 2: 72]

ಇಡೆಂಠಿಗಲೆ ಇಲೆಗಲೆ (2) "ಎ ಇಡೆಂಠಿಗಲೆ ಡೆಂಠಿಗಲೆ, ಇಲೆಂಠಿಗಲೆ ಇಡೆಂಠಿಗಲೆ  
 ಇಿಗಲೆ [ಲೆ 5555 3: 72]



२२      ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಹೋದರರ ಸಹಲರರ ಒಲನೆ ಧೈರ್ಯ ಏ ?

೨೬. ಮದರಾಸಿನ ರೋಷರರರ  
ಒಲನಿನ ರೋಷರರರ



ರೋಷರರರರ ರೋಷರರರರ  
ರೋಷರರರರ ರೋಷರರರರ  
ರೋಷರರರರ ರೋಷರರರರ

[೨೪೭೭ ೨೦:೧೧]

ಒ) ರೋಷರರರರ ರೋಷರರರರ ರೋಷರರರರ ರೋಷರರರರ ರೋಷರರರರ



52539) 527(900) 902 2000.

" 52539) 2 2) 2) 2) (= 2000, 2000) 2000 2000, 527(900) 2000-  
2000, 2000 2 2) 2) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
[2000 2000 2000]

" 2000(2 2000 2000 2000) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
2000 2000 2000 2000" [2000 2000 2000]

2000 (2000) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

" 2000(2000) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

# ક્રોડેજોલેખ, ગોલકોડો નિ

૧. બે લાલેયો ગોલકોડો જો બે સગલે બેને સેગોલે (જો

“..... લાલેસે (જો ટી) ક્રોડેજોલે, લેખ-લેખોલે નિ ક્રોડેજોલે” [૧૨૬૨૩૫૨૩]

૨. ક્રોડેજોલે નિ ક્રોડેજોલે, ક્રોડેજોલે (જો

“ભરસે (જો) ગોલકોડો ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે ગોલકોડો ગોલકોડો, ક્રોડેજોલે  
ક્રોડેજોલે ગોલકોડો ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે” ૧ [૧૨૬૨૩૫૨૩૫૨૩]

ભરસે ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે [૧૨૬૨૩૫૨૩૫૨૩]  
ક્રોડેજોલે ગોલકોડો - “ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે”

ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે (જો) ક્રોડેજોલે [૧૨૬૨૩૫૨૩૫૨૩]

22= လာဇေယျ အယော အိယောယော

"အပူရိ" နိဗ္ဗာန် အယော နိဂါဏိ အိ လာဇေယျ နိဂါဏိ အယော  
ဇဒ္ဓိယယ (လာဇေယျ ဖြူဆွဲ) ဘုရား [အာဒိ 3: ၇၂]

"22= ဗဟိဒ္ဓိယော အိယော (အိ) ဖိရိရိ အိအိ နိဗ္ဗာန်  
အိ)အိယော အိအိ ၅၈ (ယောဒိယော အိ ဗဟိ) အိအိ  
အိအိ ၂ ဖိလ (အိလ) နိဗ္ဗာန် (အိ) ယိယော အိယော  
နိဗ္ဗာန် (အိ) ၅၈ (အိ) နိဗ္ဗာန် (အိ) ဖိရိရိ အိအိ  
အိအိ (အိ) [အိအိ ၅၈ ၅: ၁]

၃. ဖိရိရိ အိအိ လာဇေ နိဗ္ဗာန် အိအိ  
(အိအိယော အိအိ ဖိရိရိ အိအိ) နိဗ္ဗာန် (အိအိ)



୨୬ ଅନେକ ଚାଲିଯାଇ ଯାଇଛି, ଅନେକ କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ମୋର ଯତ୍ନ ଚାଲି  
ଅଛି।

---

---

---


---

---

୫. ଅନେକ ଲେଖକ ଲିଖିଛନ୍ତି।

(ଅନେକ ଅନେକ କାହାଣୀ ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କୁ)

“ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ମୋର ଯତ୍ନ ଚାଲି” [ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କୁ  
“ଅନେକ କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ” [ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କୁ] ୧୫]



೬. ಸತಿಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಕಾಣಿ (ಪ. ೨೭)

ಹಾಕೋಗಲಯ ಪದೇನಿ ಸತಿಯನ್ನು ಇಂಕ: 50:00) ಪಚ  
 ಪ(600) ೮(೯೯ ನಿಕೋಯ, ಇಂಕೋನಿ) ಪಾಚ್ಚೆ ಕೇನಿ  
 0300ನಿ ಪಚ್ಚೆ 53ಕೂಱ 5000) ಪಚ್ಚೆ ಯ( ಪನೋ) ನೊ-  
 ಪ್ಪಾ ಪುನಃ ಕಾಣಿ ಪಚ್ಚೆ ನಿ ನಿ ನಿ 53ಪ್ಪೆ 5೫ [೯೯೫೫:

ಇಂಕೋನಿ 90:00]

ಪುನಃ ಕಾಣಿ (ಪ. 2) ಪಿರಿಯನಿ-  
 ನಿ 53ಪ್ಪೆ 5೫, ಪಿರಿಯ ಪಿ) ಪಚ್ಚೆ  
 ಪ(600ನಿ) [ಪುನಃ 9೫:೫೫]

ಕೊನಿ ನಿ ಪಚ್ಚೆಯು ನಿ ಪಿ ನಿ 53ಪ್ಪೆ  
 ಪ) - - - ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆಯು ಕೊನಿ ಯಕ.  
 53ಪ್ಪೆ (ಪುನಿ ಪಯಿ ೧. ಕೋಯ ಪಾಪಿರಿ) ಪಚ್ಚೆ  
 ಪಚ್ಚೆ ಪ) [೫೫೫೫ ೫: ೫-೫]

೨೮ ೨(೫ ದಿಂ ತಲೊಂನಿಂ ಶಿ) ದುರ್ವಾಕ್ಯಂ ಶಿವಂ ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ದೇವೇಂದ್ರೇ ನಮೋ  
 ೨(೫ ತಲೊ) ದುರ್ವಾಕ್ಯಂ (ಶಿ) ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ



ತಲೊಂನಿಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ  
 ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ  
 ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ  
 ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

[ನಾ(ಉದಾ ೩:೨೦)]

ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ  
 ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

[ಉದಾ ೧:೧೨]

ଘାଣ୍ଟେ ଥୁକୁ ଚାଲିବି

ଥୁକୁ ନିଶି ଘାଣ୍ଟେ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଥୁକୁ ଘାଣ୍ଟେ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଥୁକୁ ଘାଣ୍ଟେ ଚାଲିବି

ଥୁକୁ ଚାଲିବି ଘାଣ୍ଟେ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି

ଥୁକୁ ଚାଲିବି ଚାଲିବି



ଥୁକୁ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି

ଥୁକୁ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି

ଥୁକୁ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି

ଥୁକୁ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି

ଥୁକୁ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି

ଥୁକୁ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ଚାଲିବି

30 အပူ အီ (ဂါး) (၅) ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆.

" (၅) ၅၃၆၅၀ အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀  
၅၃၆၅၀ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ [ (၅၃၆၅၀ ၃: ၅၅-၅၆) ]

" --- အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ --- အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ [ (၅၃၆၅၀ ၃: ၅၆) ]

" --- အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀  
အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ --- [ (၅၃၆၅၀ ၃: ၅၇) ]

" အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ --- အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ [ (၅၃၆၅၀ ၃: ၅၈) ]

အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀  
အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀  
အပူ (၅၀) ၀၃ ၅၃၆၅ ၅၃၆၅၀ -----



બેબી સારા કાલેડરૂં જાણે (સેવિયર) ને વેલેડે ?



દુકાંઈ નહીં ઠાકેલું આસિયર જેને કે.  
 પુસ્તક કે કાલે વેલેડેલે જાણે (સેવિયર).  
 કાલેડે સુધી સેવેલે (કેવેલે, આસિયર બે  
 કાલેડે બે સ)

"કાલેડે આલેક બેબીને સંકલેડે  
 વેલેડેલે સેવેલે (સેવેલે) કે કાલે સેવેલે  
 જો સેવેલે, આલે સેવેલે, બેબી  
 સેવેલે સેવેલે (સેવેલે કાલે)"

સેવેલે (સેવેલે) ૩:૧૫

ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର (ଅଳ୍ପ) ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଏ.

ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଶିଷ୍ୟ ଅନୁଭବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭାଶିଷ୍ୟ ସାଜିବ. ଏହି ଅନୁଭବ  
ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବରେ (ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା) ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବ ସାଜିବ.



ଏହି ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଏ. ଅନୁଭବରେ  
ଅନୁଭବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ  
ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ

ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ  
ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ  
ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ

ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ  
ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ

ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ

ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବରେ

ਭੈਰਵੀ (ਲੋਕੀ) ਖਿੰਡੀ ਮੁਲ

(ਲੋਕੀ) (ਮੁਲ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ

“ ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ ”

ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ)

ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ)

ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ)

ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ)

ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) [ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ ੬:੦-੧੩]

ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ) ਭੈਰਵੀ ਮੁਲ (ਲੋਕੀ)

ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ ਸਰਲੁ ਤੇਰੇ ਠਾਕੜੀਯੁ ਤੇਰੇ ਯੁਕਤਿ  
ਜੀਠੇ ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ [ਯੁਕਤਿ ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ]

ਜੀਠੇ ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ)

- ੧. ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ)
- ੨. ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ)
- ੩. ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ)
- ੪. ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ) ਯੁਕਤਿ ਸਿੰਘ (ਯੁਕਤਿ)

५. ॡ= ॡॢ-ॡॣ ॡ।

ॢ. ॡॣ ॡ।

ॣ. ॡॣ ॡ।, ॡ।-ॡ॥ ॡ०ॣ ॡ।)- ॡ। ॡ।  
ॡ। ॡ।) ॡ। ॡ।

।. ॡॣ ॡ।

॥. ॡॣ ॡ= ॡ। ॡ। ॡ। ॡ। ॡ। ॡ। ॡ।

०. ॡॣ ॡ। ॡ। ॡ। ॡ। ॡ।

ॣ) ॡॣ ॡ। ॡ। ॡ। ॡ। ॡ। ॡ। ॡ। ॡ।

ॡ= ॡ।, ॡ ॡ) ॡ। ॡ। ॡ) ॡ) ॡ ॡ। ॡ। ॡ। ॡ।  
ॡ [ॡॣ ॡ। ॡ। ॡ।]



ನಿರ್ಮಲ 52(100) ನಿರ್ಮಲ

"ನಿರ್ಮಲ (ನಿರ್ಮಲ)"

( ೧ (ಪ್ರತಿಭಾ ೧೩: ೧-೨, ೧೩)

(ಎ) ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ತಿಳಿಸುವುದು, ಕೊಡುವುದು, ನಿರ್ಮಲ ಸಹಜವಾಗಿ  
 (ಎ) 52(100) ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು, ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು  
 ಕನಿಷ್ಠ, ಕೆ) ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು, ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು  
 ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು, ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು  
 ಕೂಡ (ಎ) ಕೂಡ, ಕೆ) ಕೂಡ (ಎ) ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ  
 ಕೂಡ, ಕೆ) ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ, ಕೂಡ  
 ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು, ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು, ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು  
 ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು, ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು, ನಿರ್ಮಲವೆಂದು ಕೊಡುವುದು





કોઈપણ વસ્તુ ઠીક ઠીક 50 જેટલે 50 જેટલે 50 જેટલે લેવા.



(સોલ, દોલ, ત્રિસ, ચૌસ, અસ, છાસ, સપ્તસ, ઠીક ઠીક 50 જેટલે લેવા)

“50 જેટલે લેવાનો નિયમ.” જે અર્થ સોલ  
નેલે અર્થે આ કૃતિઓમાં કોઈપણ  
અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે (કે અર્થે)  
અર્થે (અર્થે) અર્થે અર્થે અર્થે  
અર્થે અર્થે.”

[સંસ્કૃત અ. ૧૨]

ကံ့ၤဒေတံၤ အၤတဲၤ အၤတဲၤကံၤ သၤတဲၤ နံၤတဲၤ ?

"အၤတဲၤကံၤ ဂံၤတဲၤကံၤကံၤ အၤတဲၤကံၤ တၢၤတဲၤကံၤ နံၤတဲၤကံၤ ၅၃" [ဒဲၤဒဲၤဒဲၤကံၤ ၃:၂၀]

"တဲၤတဲၤ အၤတဲၤ အၤတဲၤကံၤ တၢၤတဲၤကံၤ လံၤကံၤ, အၤတဲၤ, အၤတဲၤ, သၤတဲၤ, တဲၤတဲၤ, တဲၤတဲၤ, ၅၃တဲၤ, ၅၃တဲၤ, သၤတဲၤတဲၤ --- [သၤတဲၤ ၂: ၂၃-၂၅]

"တဲၤတဲၤကံၤ အၤတဲၤကံၤ ဂံၤတဲၤကံၤကံၤ လၢတဲၤကံၤ နံၤတဲၤကံၤ ၅၀ကံၤ ၂ ကံၤလၢတဲၤကံၤ ၀(၀၃ အၤတဲၤကံၤ အၤတဲၤကံၤ နံၤတဲၤကံၤ ၀(၀၃" [ဒဲၤဒဲၤဒဲၤကံၤ ၆: ၇၄]

ကံၤဒေတံၤကံၤ အၤတဲၤကံၤ (၂) တဲၤတဲၤကံၤ.

"၅၃တဲၤကံၤ-အၤတဲၤကံၤ --- ၅) အၤတဲၤကံၤ, ၅၃တဲၤကံၤကံၤ တဲၤတဲၤကံၤ အၤတဲၤကံၤ ၀(၀၃ အၤတဲၤကံၤ" [ဒဲၤဒဲၤဒဲၤကံၤ ၆: ၇၅-၇၆]




ಒತ್ತಿ, ಕಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ, ಕೊಡುವೆ, ನೀ, ನಿನಗೆ, ತಾಯಿ, ಕೂಗಿ, ಮನುಷ್ಯ, ತನ್ನ, ತಿಳಿಸಿಕೊಡು, ಹೊಸ, ತನ್ನ ತನ್ನ (ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಡು ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ) ಕೊಡು.

[ಯೋಜನೆ ೨:೧೩೨]

"ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡು, ತನ್ನನ್ನು, ಹೇಳಿಕೊಡು, ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ತನ್ನ ನಿನಗೆ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡು" ? [ಯೋಜನೆ ೨:೧೦]

"ಕೊಡು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಡು ಕೊಡು" ? [ಯೋಜನೆ ೨:೧೧]

# ଝିଲେଇ ଅଲୋଚିତ୍ୱ ଲୋକ ଝି ଲେ ଝ.



(ଫିଲ୍ମରେ [୧୯୮୬: ୧୨-୧୫]  
 ଝିଲେଇ ଅଲୋଚିତ୍ୱ ଝିଲେଇ ଝିଲେଇ,  
 ଅଲୋଚିତ୍ୱ ଅଲୋଚିତ୍ୱ ଝିଲେଇ (ଝିଲେଇ  
 ଝିଲେଇ ଝିଲେଇ) "ଝିଲେଇ ଅଲୋଚିତ୍ୱ  
 ଝିଲେଇ ଝିଲେଇ ଝିଲେଇ (ଝିଲେଇ ଝିଲେଇ  
 ଝିଲେଇ ଝିଲେଇ"

[ଝିଲେଇ ଝିଲେଇ]

“ಕೃಷ್ಣೇನ ಉಪಲಾಭ್ಯಂತಿ ಕೇಶವೇನಾತ್ಮನಾ ಸತ್ಯಮುಪೇಂದ್ರನಾ” ೪೩

“ಉತ್ತಮೇಶ್ವರೋ ಉಪಲಾಭ್ಯಂತಿ ಕೇಶವೇನಾತ್ಮನಾ ಸತ್ಯಮುಪೇಂದ್ರನಾ” [ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ೪: ೨೨]

“ಉತ್ತಮೇಶ್ವರೋ ಉಪಲಾಭ್ಯಂತಿ ಕೇಶವೇನಾತ್ಮನಾ ಸತ್ಯಮುಪೇಂದ್ರನಾ” [ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ೪: ೨೨]

“ಉತ್ತಮೇಶ್ವರೋ ಉಪಲಾಭ್ಯಂತಿ ಕೇಶವೇನಾತ್ಮನಾ ಸತ್ಯಮುಪೇಂದ್ರನಾ” [ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ೪: ೨೨]

“ಉತ್ತಮೇಶ್ವರೋ ಉಪಲಾಭ್ಯಂತಿ ಕೇಶವೇನಾತ್ಮನಾ ಸತ್ಯಮುಪೇಂದ್ರನಾ” [ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ೪: ೨೨]

ੴ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੀਯੁ ਨਾਮੁ ਚੈ ਯਥਾ.

(ਏਤਾ ਗੁਰੂ ਨੀ) ਤਾਇਯੁ ਸੋਝੈ ਸਚੀ ਸਿੰਘਾ ੴ ਨਾਮੁ ਤੈ ਨਾਮੁ ਖੋਲੈ ਤੈ ਸਭਾਯੋ (ਸਾਇਯੁ ਯੁ)



॥ ਚਾਰੀ ਖਾਏ ਗੁਰੂਯੁ ਅਯੁ ਸੰਘੁ ਸੰਘੁ ਤੈ ਖੋਲੈ ਸੋਝੈ

ਘੋਰਿ ਖੋਲੈ, ਤੈ ਅਛੈ ਅਛੈ ਖੋਲੈ ਸਭੈ ਸਭੈ. ਨਿਯੋਗੁ

ਅਛੈ ਸਭੈ ਖੋਲੈ. ਓਹ ਸੋਝੈ ਚਾਰੀ ਨਾਮੁ ਅਛੈ ਸਭੈ

ਸੰਘੁ ਨਿਯੋਗੁ, "ਸਭੈ ਘੋਲੈ ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ ਘੋਲੈ ਸੋਝੈ

ਘੋਲੈ (੪) ਸਭੈ" "ਛੈ ਘੋਲੈ... [ਸਾਇਯੁ ਸਭੈ; ੮-੫]

(ਏਤਾ ਗੁਰੂ ਨੀ) ਤਾਇਯੋ (ਛੈ) ਏਤਾ ਘੋਲੈ ਤੈ ੴ ਨਾਮੁ ਖੋਲੈ

ਏਨਾ ਏਤਾ ਚੋੜੀ ਸਭੈ. (ਛੈ) ਅਛੈ ਚੋੜੀ (੪) ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ ਤਾਇਯੋ ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ

(ਏਤਾ ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ) ਘੋਲੈ ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ [ਸਾਇਯੁ ਸਭੈ; ੧੫-੧੬]









### કેટલાક બાબતો વિશે શું ?



“જે જે જાણે છે, તેને બતાવવા માટે નિર્ણય કરી શકે છે તેને જાણી શકે છે.” [માથા ૧:૩]

અર્થાત્ કહ્યું છે કે જે જે જાણે છે તેને જાણી શકે છે તેને જાણી શકે છે. [માથા ૧:૩]

જે જે જાણે છે તેને જાણી શકે છે તેને જાણી શકે છે.

જે જે જાણે છે તેને જાણી શકે છે તેને જાણી શકે છે. [માથા ૧:૩]



ཧྲིལ་པོ་ ལྷ་མོའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ འཇེན་པོ་ འོ་ལྷ་ རེམ་ རེ་

ལྷ་མོའི་  
ལྷ་མོ་-ལྷ་མོ་-ལྷ་མོ་  
ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ རེ་

For more information, write to: Home Concern  
Box: 59, Siliguri, 734 401, W. Bengal, India, or  
Home Concern, Box: 3358, Kathmandu, Nepal

*The Way to God* in Lepcha is published for Every Home Concern by World Missionary Press, Inc.